DPN 6992

धारणी संग्रह DHĀRANĪ SANGRAHA

Title :

Run. No. 7717 Cat. No. Micro. No.

Subject धारणी Dharani Religion : Hindu / Bauddha

Language : Skt. / New. / Nep. / Skt.- New. / Maith.- New. / New.- Nep. /

Size in cms. 7·0 × 17 Folios 7 (28, 30 – 35) Lines (in a page) 6

Compl. / Incompl. Chapt. / act /

Author / translator Scribe / donor फणीन्द्र रत्न वज्राचार्य

Date: NS / SS / VS / KS Ruler / place Phanindra Ratna Bajracharya

Script : New. / Dev. / Bhuj. / Ran. / Illus. :

Material : palmleaf / paper / thyasaphu /

Condition : fine / damaged by worms, rats, water /

Beginning, colophon, post-colophon :

col. इति आकाश विद्याधरी हृदयनाम धारणी समाप्त ।

P.T.O.

इति आर्य्य श्री वज्र भैरव कालचक्रस्य मन्त्र हृदय नाम धारणी परिसमाप्त

८५. आकाश विद्याधरी हृदय

मगधनिवदयरसर्वेताकिनिसहि४सर्वसत्वानांः

साकिकंपुष्ठिकंनकावनगुपिंकूवेहूंहूंस्हूर

॥ ॥श्रूणिसूर्य्याणीवकरोवेवेकालवकस्यः २८

मकुहृदयनामधारणीपविसमाप्तः॥ ॥ॐ॥

सर्वदाकारमठुरुं॥ ॥ ॐहुँ ॥ ॥

आकाश

ॐ नमः श्रीआकाशविद्याधरीदेव्यै॥ ॥ॐ वः
जयागिनीरूपसूर्य्यस्वप्रदहनागमसमूखलना
सिद्धाः॥ हमा॥ कस्यापि मनपूंसकवीजंपञ्चम॥ जं २०
वीजपवित्रिनी ... कपाद॥ ईह्रस्कपालवर्वि
तकलापुष्पमालापाणमसवर्ग्धः दक्षिणवजहस्त
ग्नि

सर्वाहरणविमुक्ता विद्याधरीकर्म्मेयुक्तां: हस्त सं
हारविग्रेहा॥ माक्षुनर्वारंभाकपालिजाककोरे
मेलमकुटः गरुहाप्रलिहिकर्णान्कउआः विद्याधरी
देवी॥ ॐ श्रीहस्तकः महावर्णः आकाशयरस्पर्वतयर
वंधयरमायघेरतः वंजाकिनीनां: हं . यह्लूं ह्लूं हस्तौ

0 ctms. 5 10 15 20 25

आधान

ॐ बुद्धडाकिनीः ॐ वज्रडाकिनीः ॐ रत्नडाकिनीः
ॐ पद्मडाकिनीः ॐ विश्वडाकिनीः ॐ सर्वयोगिनी
हूँ हर हर जीः ॐ वज्रयोगिनीः समयह्लीं दिव्यहाः न ३०
कुरु मीं सर्वसत्वानांच शमयथा ॥ ॐ निमाहरावर्त
कैलाश्च विडायेनकवीः सर्वेदुष्टप्रथमः प्रमत्तक हापि

वीः मर्कः मानुसः आनिमप्रियः महाश्मशानवाः
सिनीः विविधः विकटः वनरूपः वाजिनिः हस्तः
धुकः पिशाचः शिवः स्वानः महकः कंकः गोमय
सिंहः व्याघ्रः शार्दूलः मत्तवराहः बिडालः अजः
मयूरः वानरः वकः शुकः काकः उलूकरूपः

आकाश

हुमीदुगवग्भहःहूँकानःशून्यान्यकलिकल्या
ल्पनादगाहूँहकावरीनगुःकिलिकिलायमान
रोमहर्षनवःकहहरवालाकलिनःवदनोत्काया ३१
कःरहोतःतक्कःयटाकाटःज्वानेःवाकाहःमलेल
द्धःललितःनृत्यःमानःकवचःमूलुधनःत्रुल्लेः

कपि

पादयःरमाजःपटाकःमालाःकूलाङ्गःसङ्जितःदूकदू
किर्कःद्वृन्निर्मिलःदुनिवीजःहिमःशीघ्रःशिमिमि
मानयःपूतिकवकामकिकश्रक्रिमकूलःङ्कस्वा
लःविचित्रःकनवश्माङ्गःकायःनवकःवकाशितः
प्रकचितःमहात्मभानःवासिनीःसर्ववृक्षज्ञाकिः

नी: यानी: महावीरं: त्रिसप्तदिव्यरञ्जनी लं: प्रज्वलित
वपुषः सर्वालंकार विभूषित: वज्रसत्त्व मः माला
विद्याधरी: सर्वगन्धमालावद्ध कपाल: मकूटाद्धके ३२
नी: पञ्चनती: वज्रत्रिवर्ग हस्तिकौपीन: अट्ट मा व
अट्टहास: नीलाम्बर: कलश: साद्ध: ननवर्मा: नि:

दम्नि

यासनी: षड्जाये: धनु: वाना: युध: खड्गाङ्कु: पाग:
पाशकं: वज्र: पाश: वध्र: कपिम: मुध्रव: किलविक
ल: वज्र: विजयजनकवी: सर्वमाल: प्रमर्द्दनकर्त्री: न
वकंकाव स्वकक्षत्र ज्ञानमस्तिमेक पथ भ्रडाजा: ह्रूं
फट् २ झापय २ आनय २ सर्ववज्रडाकिनी सर्वमा:

श्रीकाल

ऽनेनग्रहाः ब्रह्मायाणी:माहेश्वरी:कौमारी:वैष्ण
वी:वाराही:इन्द्रायणी:वायव्या:चामुण्डा:महालक्ष्मि
जया:विजया:अजिता:अपराजिता:आदित्य:सो ३३
मांगार:बुध:बृहस्पति:शुक्र:शनिश्चर:राहु:के
तु:जन्म:सर्वग्रहं:सर्वनक्षत्रयज:नागस:रुद्रः

कौग्र

पुत:पिशाच:डाकिन्या:पस्मारा:पूतना:कटपूत
ना:सर्वोपद्रवा ध्व:ब्रह्मा:विष्णु:महेश्वर:सनत्कु
मार:गणपति:महाकाल:इन्द्र:यम:वरुण:कु
वेर:अग्नि:वायु:नाक्षत्राधिपति:सर्ववाहनं:
आकर्षय२ हन२ थे मे२ प्रमथ२ ह्रुं२ आविश

श्रुकाल

२ श्रा विषय २ वज्रमृगुलः मख्व्कड मश्ड्राम्यय २ म
द २ प्रमद २ प्रमर्द्दय २ धून २ विधून २ जल्प २ जल्प
य २ सर्वार्थसाधय २ श्रादृनि हूं श्राः हन २ मथ २ न
ॐ २ स्फोटय २ सर्वदुष्टान् हूं हूं फट् हह विह ज्ञीं ह्रीं
ज्ञीं महाधीमः सैनबधुपः ह्रूम २ फु ट २ प्रह २ सर्व

वलि

विघ्नविनायकानां श्राँ मारय २ खव २ खाहि २ दव २
विन्दु २ छिन्द २ पच मन्त्रान भिन्द २ पच मुद्रां धावय २
सर्वमुद्रान् हव २ संहव २ नाशय २ सर्वदुष्ट २ यक्षः मं
त्रः मन्त्रान् दय २ थ्याध्यान्यः मक्षयक निमालिनि २ काला
कालिकाः विग्रहः कलश्रुहर पच विद्यामंत्र फलकुना

श्रुकल्प

कवीः कृत्र२स्सुक्ष्म२ड्रांक्रांक्रीं२क्षन्त्र२क [illegible] र्व्वद
वानां हृदयं पृक्ष्य२वीभय२लघुर नी [illegible] न
यहः हूं क्रीः हगावमि सर्व्वबुद्ध [illegible] विद्याधनी
महामाया योगिनी सांबन्धू२नजं२मां सिद्धि२३उ
हूं हूं हूं हूं हूं स्वाहा॥ ॥ इति श्रीकामाविद्याश्वनी
हृदयनाम धारणी समाप्त॥ ॥ शुभ॥ ॥ २७

ग्नि

फलस्तिरत्नवज्राचार्य